

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22.11.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 21.11.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवं संलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश आदि की कार्यवाही करने हेतु जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मय पुलिस फोर्स द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत ईंट भट्टों, देवारा क्षेत्रों एवं संभावित स्थानों पर दबिश देकर मौके से कुल लगभग 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए कुल 05 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध 05 अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया गया।

02. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक 21.11.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कुल 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है

* ➡ **थाना बरहज-*** मु0अ0स0 240/2021 धारा 384,386,323,504 भादवि0 नाम पता अभियुक्त. 1. बन्टी उर्फ आकाश वर्मा पुत्र संजय वर्मा सा0 तिवारीपुर थाना बरहज जनपद देवरिया ।

* ➡ **थाना रुद्रपुर-*** मु0अ0स0 227/2021 धारा 376,323,504,506 भादवि0 नाम पता अभियुक्त. 1. लाल बांसफोर पुत्र भूखल बांसफोर निवासी चूहिया थाना लार देवरिया ।

03. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 21.11.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 47 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

04. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 21.11.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 58 वाहनों से 60,500 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

